

बैम्बू ड्वेलिंग बैट

हाल ही में वैज्ञानिकों ने नोंगखल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बैट (Bamboo Dwelling Bat) की एक नई प्रजात की खोज की है।

नई खोजी गई प्रजात के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- बैम्बू ड्वेलिंग बैट की नई प्रजात का नाम ग्लिस्क्रोपस मेघलायानस (*Glischropus meghalayanus*) रखा गया है।
 - बैम्बू ड्वेलिंग बैट एक विशेष प्रकार के बैट्स/चमगादड़ होते हैं जो बाँस के इंटरनोड्स में रहते हैं तथा जसमें विशेष रूपात्मक लक्षण वदियमान होते हैं जो उन्हें बाँस के पौधे के अंदर रहने हेतु अनुकूल होने में मदद करते हैं।
- यह आकार में छोटा होता है और गहरे भूरे रंग के साथ सल्फर के रंग के समान पीले रंग का पेट होता है।
- वर्तमान खोज न केवल भारत से बल्कि दक्षिण एशिया से भी थकि थम्ब्ड बैट (Thick-Thumbed Bat) पर पहली रिपोर्ट है।



थकि थम बैट के बारे में:

- थकि थम बैट के अंगूठे और पैरों के तलवों पर वशिष्टि माँसल पैड होते हैं जो उन्हें बाँस के इंटरनोड्स की चकिनी सतहों पर चलने में सहायता करते हैं।
- जीनस ग्लिस्क्रोपस के थकि थम बैट/चमगादड़ वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया से चार मान्यता प्राप्त प्रजातियों में शामिल हैं।
 - जी. एकवलिस सुमात्रा के लिये स्थानिक है, जी जावनस पश्चिमी जावा तक सीमिति है, जबकि जी. बुसेफालस व्यापक रूप से करा इस्थमस के उत्तर में पाए जाते हैं और जी. टायलोपस इस प्राणी-भौगोलिक सीमा के दक्षिण में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
- इससे पहले, उत्तर-पूर्वी भारत के मेघालय से मोटे-अंगूठे वाले चमगादड़ (चरिप्टेरा: वेस्परटलियोनडि: ग्लिस्क्रोपस) की एक नई प्रजात की खोज की गई थी।

मेघालय में चमगादड़ों की खोज:


- नॉगखल्लिम वन्यजीव अभयारण्य के बाहर उसी वनाच्छादित क्षेत्र से, **डसिक-फुटेड बेट यूडसिकोपस डेंटकुलस** की एक और प्रजाति मिली जो भारत में एक नया रिकॉर्ड है।
- पछिले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र से तीन बाँस-नवासी चमगादड़ों की जानकारी दी गई है जो इस क्षेत्र के पारस्थितिक महत्त्व को उजागर करते हैं।
 - चूँकि वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर बाँस के जंगल में एक समृद्ध जैव-विविधता है, इसलिये इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

भारत में चमगादड़ की प्रजातियों की संख्या:

- **कुल संख्या:**
 - इस नई खोज के साथ भारत से ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों की **कुल संख्या 131** हो गई है।
- **उच्चतम चमगादड़ विविधता:**
 - **मेघालय में 67 प्रजातियों** के साथ देश में **सबसे अधिक चमगादड़ विविधता है**, जो देश में कुल चमगादड़ प्रजातियों का लगभग 51% है।
 - मेघालय अपने अद्वितीय भूभाग, वनस्पति और जलवायु की स्थिति के कारण, वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिये एक आश्चर्य स्थल था।
 - पूर्वोत्तर राज्य की अनूठी गुफाओं ने बड़ी संख्या में चमगादड़ों के लिये आवास के अवसर प्रदान किये।
 - मेघालय में कई गुफाओं में रहने वाली चमगादड़ प्रजातियाँ थीं, जिनमें सबसे आम घोड़े की नाल के आकार का चमगादड़ और पत्ती के आकार वाली नाक वाले चमगादड़ हैं।

नॉगखल्लिम वन्यजीव अभयारण्य

- लैलाड गाँव के पास री-भोई ज़िले में स्थित और 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला नॉगखल्लिम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है।
- अभयारण्य पूर्वी हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है।
- अभयारण्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों को आवास प्रदान करता है, जैसे किरियल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन और हिमालयन ब्लैक बयिर आदि।
- पक्षियों में मणपिर बुश क्वेल, रूफस नेकड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल दुर्लभ प्रजातियाँ हैं।
- मेघालय में अन्य वन्यजीव अभयारण्य:
 - सज्जु वन्यजीव अभयारण्य
 - नरपुह वन्यजीव अभयारण्य
 - बाघमारा पंचिर प्लांट अभयारण्य
 - नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान



यूपीएससी सविलि सेवा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? (2016)

(A) अंडमान द्वीप

- (B) अन्नामलाई वन
(C) मैकाल पहाड़ियाँ
(D) पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षावन

उत्तर: (A)

व्याख्या:

- भारत के वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने केले की एक नई प्रजाति, मूसा इंडोमार्नेसिस की खोज लटिलि अंडमान द्वीपों पर स्थिति कृष्णा नाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से की थी।
- इसके फूल नियमति केले की प्रजातियों के शंक्वाकार आकार की तुलना में बेलनाकार होते हैं।
- यह लगभग 11 मीटर ऊँचा होता है, जबकि सामान्य केले की प्रजाति लगभग तीन से चार मीटर ऊँची होती है।
- प्रजाति खाने योग्य और बहुत स्वादुषिट है। फलों का गूदा नारंगी रंग का होता है, जो नियमति केले के सफेद और पीले रंग से अलग होता है। **सतः वकिल्प (A) सही उत्तर है।**

स्रोत : द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bamboo-dwelling-bat>

